



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 15, 2003 (फाल्गुन 24, 1924)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 15, 2003 (PHAGUNA 24, 1924)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2 [PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
(Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court)

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2003

सं० आर० एस०/1531/स्था०(कामिक)--श्री राम वृक्ष राम, सहायक निदेशक (सुरक्षा) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 28 फरवरी, 2003 के अवसराह से सेवानिवृत्त हो गये।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

दिनांक 3 मार्च 2003

सं० आर०एस०/3/(xiii)/2003/6-कामिक--राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में सुरक्षा अधिकारी श्री सुरेश कुमार, बख्शी को 1 मार्च, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में सहायक निदेशक (सुरक्षा) के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की वृथा की है।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 जनवरी, 2003

सं० पीएफ 1747 (3)/जी एन-4878/ए एन-1/2003-अध्यक्ष महोदय, 12750-16500 रु० के वेतनमान में उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री जे० पी० शर्मा को 15100-400-18300 रु० के वेतनमान में निदेशक के ग्रेड में 9 फरवरी, 2003 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राम अवतार राम, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 1748(3)/जी एन-4879/ए एन-1/2003-अध्यक्ष महोदय, 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं० जी एन-4616/2001 के द्वारा तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त निम्नलिखित अवर सचिवों को नीचे दिए गए क्रम में 12750-375-16500 रु० के वेतनमान में नियमित

आधार पर 9 जनवरी, 2003 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्री ए० ए० चैरा
2. श्री आर० के० जैन

राम अवतार राम, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ-1236(3)/जीएन-4880/एएन-I/2003—
अध्यक्ष महोदय 12000-16500 रु० के वेतनमान में अवर सचिव के पद पर कार्यरत श्री गोपाल सिंह को 12750-375-16500 रु० के वेतनमान में उप-सचिव के ग्रेड में, तदर्थ आधार पर 9 जनवरी 2003 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

राम अवतार राम, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ-2294(3)/जीएन-4881/एएन-I/2003—
अध्यक्ष महोदय 10000-15200 रु० के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित सहायक निदेशकों को 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में अवर सचिव के ग्रेड में नीचे दर्शाए गए क्रम में 9 जनवरी 2003 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं —

1. श्री पी० सी० कौल
2. श्रीमती नीरा सिंह
3. श्री एम० एम० हुडा

राम अवतार राम, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 2500(3)/जी एन-4882/ए एन-2003—
अध्यक्ष महोदय 8000-13500 रु० के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारियों को 10000-325-15200 रु० के वेतनमान में सहायक निदेशक के ग्रेड में नीचे दर्शाये गए क्रम में 9 जनवरी, 2003 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्री ए० के० शाह
2. श्री आई० एम० कॉडवान
3. श्री जे० वी० जी० रेड्डी

राम अवतार राम, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 2378(3)/जी एन-4883/ए एन-I/2003—
अध्यक्ष महोदय 8000-13500 रु० के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी, श्री एम० के० मधुसूदन को 10000-325-15200 रु० के वेतनमान में सहायक निदेशक के ग्रेड में, तदर्थ आधार पर, 9 जनवरी, 2003 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

राम अवतार राम, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 1363(3)/जी एन-4884/ए एन-I/2003—
अध्यक्ष महोदय 7450-11500 रु० के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल सहायकों को 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में नीचे दर्शाए गए क्रम में 9 जनवरी, 2003 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्री एन० के० जैन
2. श्री जे० के० जैन
3. श्रीमती सुरिन्तर मारवाह
4. श्रीमती विपिन सोनी

2. उपर्युक्त व्यक्ति कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में 9 जनवरी, 2003 से 8 जनवरी, 2005 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे ।

3. कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में कार्यरत उक्त अधिकारियों की परस्पर-वरिष्ठता नए वरिष्ठता आदेशों, जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है और भूतलक्षी प्रभाव से यथासमय जारी किया जाएगा, के अनुसार विनियमित की जाएगी ।

राम अवतार राम, संयुक्त सचिव

दिनांक 28 जनवरी 2003

सं० पीएफ 2618(3)/ए एन-I/जी एन-4888/2003—
अध्यक्ष महोदय, 7450-11500 रु० के वेतनमान में अनुवादक के पद पर कार्यरत श्री रवीन्द्र कुमार मंड को 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में सहायक संपादक के ग्रेड में 25 जनवरी, 2003 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

2. श्री मंड, सहायक संपादक के ग्रेड में 25 जनवरी, 2003 से 24 जनवरी, 2005 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे ।

3. सहायक संपादक के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता नए वरिष्ठता आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है और भूतलक्षी प्रभाव से लागू करते हुए यथा-समय जारी किया जाएगा ।

राम अवतार राम, संयुक्त सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2003

सं० पीएफ 1159(3)/ए एन-I/जी एन-4890/2003—
अधिवर्षिता को आयु प्राप्त करने पर प्रधान मुख्य सम्पादक श्री पी० सी० चौधरी 31 जनवरी, 2003 के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो गए हैं ।

राम अवतार राम, संयुक्त सचिव

दिनांक 13 फरवरी 2003

सं० पीएफ 1259(3)/ए एन-1/जी एन-4895/2003—
अध्यक्ष महोदय, 12750—16500 रु० के वेतनमान में मुख्य
संपादक के पद पर कार्यरत श्री शारदा प्रसाद को 15100—
400—18300 रु० के वेतनमान में प्रधान मुख्य संपादक के
ग्रेड में 9 फरवरी, 2003 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त
करते हैं।

राम अवतार राम, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 1313(3)/ए एन-1/जीएन-4896/2003—
अध्यक्ष महोदय 12000-16500 रु० के वेतनमान में वरिष्ठ
संपादक के पद पर कार्यरत श्री विद्यासागर शर्मा को 12750-
375-16500 रु० के वेतनमान में मुख्य संपादक के ग्रेड में
9 फरवरी, 2003 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राम अवतार राम, संयुक्त सचिव

सं० पी एफ 1826(3)/ए एन-1/जीएन-4897/2003—अध्यक्ष
महोदय 10000-15200 रु० के वेतनमान में संपादक के पद
पर कार्यरत श्री बी० के० पाठक को 12000-375-16500 रु०
के वेतनमान में वरिष्ठ संपादक के ग्रेड में 9 फरवरी,
2003 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राम अवतार राम, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 2069 (3)/ए एन-1/जी एन-4898/2003—
अध्यक्ष महोदय 8000-13500 रु० के वेतनमान में सहायक
संपादक के पद पर कार्यरत श्री बी० एस० चौहान को 10000-
325-15200 रु० के वेतनमान में संपादक के ग्रेड में 9 फरवरी,
2003 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राम अवतार राम, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 3051(3)/ए एन-1/जी एन-4899/2003—
अध्यक्ष महोदय 7450-11500 रु० के वेतनमान में अनुवादक
के पद पर कार्यरत कुमारी परमजीत कौर को 8000-275-
13500 रु० के वेतनमान में सहायक संपादक के ग्रेड में
9 फरवरी, 2003 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. वह सहायक संपादक के ग्रेड में 9 फरवरी, 2003 से
8 फरवरी, 2005 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा
पर रहेंगी।

3. उनकी सहायक संपादक के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता
नये वरिष्ठता आदेशों, जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है और
भूतलक्षी प्रभाव से लागू करते हुए यथासमय जारी किया
जाएगा, के अनुसार विनियमित की जाएगी।

राम अवतार राम, संयुक्त सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560 094, दिनांक 26 फरवरी 2003

सं० 2/2(3)/98-V--अनुशासक कार्रवाई के पूर्ण होने
पर, राष्ट्रपति, दिनांक जनवरी 10, 2003 के समसंख्यक आदेश
के द्वारा अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद
के श्री ए० एम० बुच, वैज्ञानिक/इंजीनियर-‘एस०डी०’ को सेवा
से बर्खास्त करते हैं।

वाणी रामचन्द्र, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2003

सं० ए-19(4)/2003-प्रशा० II--राष्ट्रपति, श्री एम०
विजयकुमार को योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
(धातु विज्ञान) के पद पर 10,000-325-15200/- रु० के
वेतनमान में (सामान्य नियमों के अधीन) दिनांक 14 फरवरी,
2003 की पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक, अस्थायी आधार पर
नियुक्त करते हैं।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

त्रिधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 24 फरवरी 2003

सं० के० 11017/2/2003-यू० एस०-II--भारत के
संविधान के अनुच्छेद 222 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्याया-
धीश से परामर्श के बाद, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य
न्यायाधीश, न्यायविद् श्री विनोद कुमार गुप्ता का स्थानांतरण
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में
करते हैं और उन्हें 11 मार्च 2003 को या उससे पूर्व
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार
ग्रहण करने का निर्देश देते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

सं० के० 11017/2/2003-यू० एस०-II--भारत के
संविधान के अनुच्छेद 222 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से
परामर्श के बाद, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
न्यायविद् श्री पेरुवेबा कृष्ण अय्यर बालसुब्रह्मण्यन का स्थाना-
ंतरण झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में
करते हैं और उन्हें 11 मार्च, 2003 को या उससे पूर्व झारखंड
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करने
का निर्देश देते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

सं० के-13016/5/2002-यू०एस०-II—जम्मू एवं कश्मीर में इसकी प्रासंगिकता के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 (1-ए) के साथ पठित अनुच्छेद 222 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायविद् श्री बाबूलाल चंदलाल पटेल का स्थानांतरण दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में करते हैं और उन्हें 11 मार्च 2003 को या उससे पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

अब, जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 100 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, उस तारीख से, जब से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री बाबूलाल चंदलाल पटेल उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार छोड़ते हैं, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायाविद् श्री विजय कुमार झांजी को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

दिनांक 26 फरवरी, 2003

सं० के-13013/3/2002-यू०एस०-I—भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (1) न्यायविद् डॉ० गुरुगुल्लि, यतिराजुलू (2) न्यायविद् श्री दलवा सुब्रह्मण्यम, (3) न्यायविद् श्री दूवगुंटा सुब्रह्मण्यम एवं (4) न्यायविद् श्री चित्तमनेनि श्रीराम कृष्ण प्रसाद को उसी वरीयता क्रम में, अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 फरवरी 2003

सं० 14016/59/2001-यूटीएस-II—राष्ट्रपति, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा के निम्नलिखित ग्रेड-I अधिकारियों (चयन ग्रेड) को दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा नियम, 1996 के नियम 7 के उप-नियम (3) से (5) के अनुसरण में तत्काल प्रभाव से 12,000-375-16,500 रुपये के वेतनमान में सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	ओंकार (अनु० जाति)	09-02-1947	एन बी आर के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति
2.	आर० के० मिश्रा	13-12-1958	—
3.	जे० एस० सिद्धू	13-03-1959	एन बी आर के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति
4.	कृष्ण कुमार	25-12-1953	—वही—
5.	आर० एन० मंगला	23-04-1958	—
6.	बी० के० बेनीवाल	22-07-1957	—
7.	पी० सी० जैन	20-12-1958	एन बी आर के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति 6 माह की अधिकतम अवधि तक या सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में संवर्ग पद पर नियुक्ति हो जाने तक; इनमें से जो भी पहले हो, सीमित है।
8.	श्रीमती मधु के० गर्ग	27-01-1961	—
9.	डी० सी० राय (अनु० जाति)	01-04-1944	—
10.	एस० एन० मिश्रा	15-12-1959	एन बी आर के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति

1	2	3	4
11.	देवेन्द्र सिंह	26-11-1961	—
12.	राकेश भटनागर	26-03-1959	—
13.	प्रेम चन्द (अनु० जाति)	14-04-1944	एन बी आर के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति
14.	लखपत राय गर्ग	05-08-1959	-वही-
15.	एस० के० भंडारी	01-06-1961	-वही-
16.	बंसी नाल शर्मा	20-11-1959	—
17.	बसु कुमार	29-10-1949	—
18.	उमेश कुमार	06-03-1959	एन बी आर के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति
19.	सेफास जैक (अनु० जनजाति)	07-02-1943	—
20.	जे० पी० अप्रवाल	05-06-1962	एन बी आर के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति
21.	सुधीर महाजन	14-02-1961	—
22.	जी० जी० बाबापात्र (अनु० जनजाति)	01-07-1951	—
23.	अजय कुमार सिंगला	07-02-1960	एन बी आर के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति 6 माह की अधिकतम अवधि तक या सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में संवर्ग पद पर नियुक्ति हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सीमित है।
24.	डी० एन० सिंह	08-03-1961	एन बी आर के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति
25.	एस० एस० सिद्धू	05-01-1955	—
26.	बी० आर० सिंह	28-01-1960	—
27.	दुर्गादास (अनु० जाति)	10-10-1945	—
28.	सुरेश गुप्ता	25-06-1959	—
29.	एम० एस० पूनम	05-07-1964	एन बी आर के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति
30.	एस० एस० कनावत (अनु० जाति)	17-07-1958	-वही-
31.	वीरेन्द्र कुमार	29-04-1963	—
32.	अजीमूल हक	01-01-1966	एन बी आर के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति
33.	बी० के० गुप्ता	10-09-1951	—
34.	मुकेश प्रसाद	22-06-1962	एन बी आर के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति
35.	आर० सी० मीणा (अनु० जनजाति)	16-01-1957	-वही-
36.	बी० के० हरित (अनु० जाति)	16-01-1961	एन बी आर के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति 6 माह की अधिकतम अवधि तक या सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में संवर्ग पद पर नियुक्ति हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सीमित है।
37.	एम० आर० एम० राव	12-04-1965	-वही-
38.	एस० के० जैन	18-04-1965	एन बी आर के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति
39.	एस० बी० शशांक	14-02-1963	-वही-
40.	एच० पी० सिंह	27-07-1964	-वही-
41.	विजेन्द्र सिंह	19-05-1963	—
42.	के० के० भाटिया	01-03-1944	एन बी आर के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति 6 माह की अधिकतम अवधि तक या सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में संवर्ग पद पर नियुक्ति हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सीमित है।
43.	श्रीमती रश्मि सिंह	03-07-1967	एन बी आर के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति

एन० जे० थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 25 फरवरी 2003

सं० 14016/16/2002-यूटीएस-II--राष्ट्रपति, दिल्ली, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा (दानिक्स) के निम्नलिखित ग्रेड-II अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से सेवा के ग्रेड-I (सलेक्शन ग्रेड) में नियुक्त करते हैं।

क्रम सं०	नाम सर्वश्री	ग्रेड-I (सलेक्शन ग्रेड) नियुक्त की तारीख
1.	पी० आर० कृष्ण नारायणन	19-01-1984
2.	ई० पी० अट्टाकोया थांगल	19-01-1984
3.	बी० एस० पंवार	10-06-1988

3. इस नियुक्ति के बाद सर्वश्री पी० आर० कृष्ण नारायणन और ई० पी० अट्टाकोया थांगल के नामों को गृह मंत्रालय की दिनांक 4 अगस्त, 1995 की अधिसूचना सं० 14016/36/94-यूटीएस-II में श्री ए० के० आचार्य के नाम के नीचे तथा श्री एस० एन० चटर्जी के नाम के ऊपर क्रमशः क्रम सं० 27-क और 27-ख पर रखा जाता है तथा उसी अधिसूचना में श्री बी० एस० पंवार के नाम को श्री एस० के० माथुर के नाम के नीचे और श्रीमती रश्मि कृष्णन के नाम के ऊपर क्रम सं० 94-क पर रखा जाता है।

एन० जे० थॉमस, अवर सचिव

सं० 14040/6/2000-यूटीएस-II--राष्ट्रपति, दिल्ली, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा (दानिक्स) के ग्रेड-I अधिकारी श्री मधुकर को 16 दिसम्बर, 1993 से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. इस नियुक्ति के बाद श्री मधुकर का नाम गृह मंत्रालय की दिनांक 9 अगस्त, 1996 की अधिसूचना सं० 14016/46/94-यूटीएस-II में श्री के० के० जिन्दल के नाम के नीचे और श्री राजीव काले के नाम के ऊपर क्रम सं० 94-क पर रखा जाएगा।

एन० जे० थॉमस, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24-2-2003

सं० आई-14020/6/97-ए०डी० (सी०डी०)--राष्ट्रपति, मुख्य आयकर आयुक्त, ठाणे के कार्यालय में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, श्री राम कुमार ठाकुर की, गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर, में 5-2-2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक प्रयोजनित के आधार पर हिन्दी अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के० सी० यादव अवर सचिव

नई दिल्ली दिनांक 4 मार्च 2003

सं० आई-14011/6/2002-आई०पी०एस०-I--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 20-02-2003 को चयन समिति की दिनांक 31-12-2002 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2002 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के गुजरात संवर्ग में वर्ष 2002 में पांच मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु गुजरात राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1*	ए० बी० वसावा (अ० जजा०)	01-05-1951
2*	जे० एन० राजगौर	04-01-1954
3.	आर० जे० सवानी	29-12-1959
4.	डी० आर० पटेल	01-06-1957
5.	एस० एम० कटारा (अ० जजा०)	01-06-1957

* क्रम सं० 1 एवं 2 पर दिए गये नाम को राज्य सरकार द्वारा उन्हें सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के अध्यक्षीय सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है।

चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशें माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में श्री एस० एस० त्रिवेदी द्वारा दायर एस० सी० ए० संख्या 582/97 एवं एच० जी० पटेल द्वारा दायर एस० सी० ए० संख्या 9286/97 के अंतिम निर्णय के अधीन हैं।

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

सं० आई-14011/6/2002-आई०पी०एस०-I--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिबीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत गुजरात संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्तियाँ अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	आर० जे० सवानी	29-12-1959
2.	डी० आर० पटेल	01-06-1957
3.	एस० एम० कटारा	01-06-1957

उपरोक्त नियुक्तियाँ भाननीय गुजरात उच्च न्यायालय में श्री एस० एम० त्रिवेदी द्वारा दायर एस० सी० ए० संख्या 582/97 एवं एच० जी० पटेल द्वारा दायर एस० सी० ए० संख्या 9286/97 के अंतिम निर्णय के अधीन हैं।

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2003

सं० 20/जी/2471-प्रशा० 1—राष्ट्रपति, श्री के० एस० रामसुब्बन, भा० प्र० से० (प० बं०-76) को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में दिनांक 03 मार्च, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

सं० 20/जी/2472-प्रशा० 1—राष्ट्रपति, श्रीमती एम० एस० गवई, भा० प्र० से० (महाराष्ट्र-84) को गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में दिनांक 03 मार्च 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

अन्तर्राज्य परिषद सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2003

सं० ए-19011/3/2002-अ० रा० प०—श्री एन० एल० लखनपाल, भा० प्र० से० (महाराष्ट्र-67) सचिव, अन्तर्राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, अपनी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा पूरी कर दिनांक 28 फरवरी, 2003 को भारत सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अतनु बैनर्जी, निदेशक

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2003

शं० फा० 2/65/2003-डोनर—राष्ट्रपति, श्री एम० के० शर्मा को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग में 23 फरवरी, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक 6500-10500 रुपये के वेतनमान में, सर्वोप डेहक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

पी० के० जैन, अवर सचिव

दिनांक 19 फरवरी 2003

सं० फा० 2/65/2003-प्रशा०—राष्ट्रपति, श्रीमति सुनीता छिन्वा, आई० ई० एल० को 3 फरवरी, 2003 के पूर्वाह्न के प्रभाव से अगले आदेशों तक 14300-400-18300 रुपये के वेतनमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग में निदेशक के रूप में महर्षि नियुक्त करते हैं।

टी० के० मुहान, उप सचिव

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2003

सं० 14015/30/2001-अ० भा० से०—(I)-क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के नियम 7 के उप नियम (3) में विहित उपबन्धों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने, चयन समिति द्वारा 3-10-2002 को आयोजित अपनी बैठक में, भारतीय प्रशासनिक सेवा, केरल संवर्ग में 2001 के दौरान 4 रिक्तियों हेतु तैयार की गई केरल राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम वाली प्रवर सूची को अनुमोदित कर दिया है:—

क्रम सं०	नाम	जन्म तिथि
1.	श्रीमती सुमन एन० मेनन (अनु० जा०)	26-5-1959
*1क.	श्री के० आर० राजन	2-12-1956
2.	श्रीमती एस० साथी अम्मा	6-2-1948
3.	श्री टी० टी० एन्टनी	15-12-1952
4.	श्री के० अजय कुमार	28-12-1955

*श्री के० आर० राजन को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्रवाई के अंतिम निर्णय तथा राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र दिये जाने के अधीन इस प्रवर सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है। उनका नाम प्रवर सूची के लिए प्राधिकृत संख्या के अतिरिक्त रखा गया है।

**चयन समिति की सिफारिशें श्री आर० रामदास द्वारा एन० कुलम पीठ, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में दायर ओ० ए० संख्या-777/2002 में दिए गए दिनांक 15-1-03 के अंतिम आदेश के मूताबिक इस मामले में दिए जाने वाले अंतिम निर्णय के अध्वधोन है।

यश दीगरा, अवर सचिव

सं० 14015/30/2001-अ० भा० से०—(I) ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप नियम (I) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (मर्ती) नियम, 1954 के नियम, 8 के उप नियम (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, केरल राज्य सिविल सेवा के सदस्यों श्रीमती सुमन एन० मेनन, श्रीमती एस० साथी अम्मा, श्री टी० टी० एन्टनी तथा श्री के० अजय कुमार को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवर्तित कर तत्कालीन प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (I) के अधीन केरल संवर्ग में आवंटित करते हैं।

यह नियुक्तियाँ श्री आर० रामदास द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एन० कुलम पीठ में दायर ओ० ए० संख्या 777/2002 के अंतिम निर्णय के अध्वधोन है।

यश दीगरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2003

सं० 24012/7/2003-प्रशा०-1-राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम मध्य राज्य क्षेत्र (अगमूट) संवर्ग के श्री केशव गौड़, भारतीय प्रशासनिक सेवा (अगमूट : 91) का दिनांक मई 15, 2002 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में त्याग पत्र स्वीकार करते हैं।

शौकत अली, डैस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2003

सं० 22012/161/92-अ०भा०से०-()-सी० डब्ल्यू० पी० सं० 6533/98 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 01-10-2002 के आदेश के साथ पठित ओ०ए० सं० 30 8/92 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रधान न्यायपीठ के दिनांक 06-02-1998 के आदेश और एस०एल०पी० (सी) सं० 2174/2003, में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14-02-2003 के आदेश के अनुसरण में केन्द्र सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री के० शिवाजी, भा०प्र०से० (आर०आर० : 86) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करती है।

के०के० शर्मा, डैस्क अधिकारी

सं० 13017/44/2002-अ०भा०से०-(1)-केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सरकार की सहमति से श्री सुदीप सक्सेना, भा० प्र० से (आ० आ० : 89) की, भारतीय प्रशासनिक सेवा के तमिलनाडु संवर्ग से मध्य प्रदेश संवर्ग में उनके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार में कार्यग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, एतद्द्वारा प्रतिनियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करती है।

के०के० शर्मा, डैस्क अधिकारी

प्रशिक्षण प्रभाग

नई दिल्ली-110067, दिनांक 27 फरवरी 2003

सं० 13019/3/2003-अकादमी डैस्क-राष्ट्रपति, श्री विनोद कुमार, भा० प्र० से० (नागालैंड : 70), विशेष निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी को 20 जनवरी, 2003 से अगले आदेशों तक निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के रूप में नियुक्त करते हैं।

मनीषा भटनागर, डैस्क अधिकारी

सं० 13016/2/2001-प्रशिक्षण-1-राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अवर सचिव श्री पी० एस० मरीन को 17 फरवरी 2003 की पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली में उप निदेशक (प्रबन्ध सेवाएं) के रूप में नियुक्त करते हैं।

मनीषा भटनागर, डैस्क अधिकारी

दिनांक 3 मार्च, 2003

सं० 13016/4/2002-प्रशिक्षण-1-राष्ट्रपति, विद्युत मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री चन्दन मुखर्जी की सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (कार्यालय प्रबंध) के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर, नियुक्ति को 9-2-2003 से 8-5-2003 तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए या उनके एवजी के कार्यभार ग्रहण कर लिए जाने तक, इनमें से जो पहले हो, जारी रखते हैं।

2. यह इस विभाग की दिनांक 28-2-2003 की अधिसूचना सं० 13016/4/2002-प्रशिक्षण-1 के क्रम में जारी किया जा रहा है।

मनीषा भटनागर, डैस्क अधिकारी

सं० 13019/14/2000-अकादमी डैस्क-उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप श्री बजाहत हबीबुल्लाह, भा० प्र० से० (जम्मू और कश्मीर : 68) ने 13 जनवरी, 2003 (अपराह्न) से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में निदेशक के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

मनीषा भटनागर, डैस्क अधिकारी

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं० 15 : (फा० सं० ए० 19011/10/2002-प्रशा०-1) इस विभाग की दिनांक 24-6-2002 की अधिसूचना सं० 48 और दिनांक 22-11-2002 की अधिसूचना सं० 89 के क्रम में राष्ट्रपति, श्री एम० के० जून्सी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष और भारत सरकार, वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय, राजस्व विभाग के पदेन विशेष सचिव की दिनांक 1-2-2003 से 31-5-2003 तक और 3 (तीन) मास की अवधि के लिए वेतन एवं दायर रहते हैं।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

दिनांक 13 फरवरी 2003

सं० 18 (फा०सं०ए० 19012/5/2003-प्रशा० I) — राष्ट्रपति, श्रीमति प्रिया वी० के० सिंह, (भा०सी०शु० एवं के० उ०शु० सेवा : 91) को दिनांक 11-02-2003 (पूर्वाह्न) से चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राज्य विभाग में उप सचिव नियुक्त करते हैं।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2003

शुद्धि पत्र

सं० ए-12011/9/2002-प्रशा० 2—इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, "30-12-2002 (अपराह्न)" शब्दों के स्थान पर कृपया "30-12-2002 (पूर्वाह्न)" पढ़ा जाए।

ओ० पी० शर्मा, डेस्क अधिकारी

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2003

सं० ए-12025/1/2003-ई० जी०— राष्ट्रपति, भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ टाइम स्केल-अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गयी तारीखों से नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	से प्रभावी
	सर्व श्री	
1.	श्री अनादि मिश्रा	18-12-2000
2.	सुमन्त नारायण	18-12-2000
3.	सतीश सेठी	18-12-2000
4.	धर्मेन्द्र कुमार	18-12-2000
5.	फेजुल इमाम	4-09-2000
6.	सुश्री साई अलादिनी पंडा	18-12-2000
7.	सुश्री अपराजिता घोष	18-12-2000
8.	सुश्री विष्णु सुंदर	18-12-2000
9.	पी० वी० हरि कृष्ण	21-09-2000
10.	आर० टी० वेंकट सेमी	18-12-2000
11.	डी० जयशंकर	04-09-2000
12.	विक्रम डी० मुरुगाराज	18-12-2000
13.	राजदीप सिंह	18-12-2000
14.	संतोष कुमार	18-12-2000

2. सभी 14 अधिकारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अग्रिम कार्यालय में कार्यरत हैं।

महेन्द्र कुमार, उप सचिव

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 2002

सं० पी एफ जी (846)/2002-प्रशा०-I—संव लोक सेवा आयोग के द्वारा भारतीय विधि सेवा के कनिष्ठ सहायक (लेखा शाखा) के वेतनमान रु० 8000-275-13,500 में चयन किये जाने पर राष्ट्रपति महोदय, श्री एन० के० दुआ को कंपनी कार्य विभाग के मुख्यालय में 10-10-2002 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक सहायक निदेशक (जांच) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजेश मल्होत्रा, उपसचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 फरवरी 2003

सं० पीएफजी (636)/2001-प्रशा०-II—संव लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा चयन हो जाने पर राष्ट्रपति, महोदय श्रीमती कोम्मूरी लता परिमला बदाना को भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ समवयान (विधि शाखा) में 18-10-2000 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

2. कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 448 की उपधारा (1) (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने श्रीमती कोम्मूरी लता परिमला बदाना को उच्च न्यायालय चेन्नै से संलग्न शासकीय समापक के कार्यालय में 18-10-2002 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक सहायक शासकीय समापक के स्थानापन्न पद पर नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

सं० 11/29/95-ईपी(एपी-IV)—राष्ट्रपति द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडी) के अध्यक्ष के पद पर श्री अनिल स्वरूप, आई ए एस (उ० प्र० 81) की सामान्य प्रतिनियुक्ति की अवधि को 13 अक्टूबर, 2002 से आगे छः माह की अवधि के लिए इस निर्देश के साथ बढ़ाया जाता है कि छः माह की समयवृद्धि की माप्ति के बाद वह पदावनत हो जाएंगे।

अनूप के० ठाकुर, संयुक्त सचिव

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2003

सं० 2/2/2002/मा० सं० वि०-1/29—विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विदेश व्यापार विकास अधिकारी (राजपत्रित सनूह-ख) (गैर-सी एस एस) के पद पर चयन किये जाने के फलस्वरूप महानिदेशक, विदेश व्यापार निम्न-

लिखित अधिकारियों को इस महानिदेशालय के दिनांक 28-2-2003 के आदेश सं० 28/2003, में उल्लिखित तैनाती-स्थान में पद का कार्यभार सम्भालने की तारीख से इस महानिदेशालय में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं० और अधिकारी का नाम

1. श्रीमती अरुण एन० कोली
2. श्री राजेश राजभट्ट

ए० के० एम० चाकणकर
संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

बायदा बाजार आयोग

मुंबई-400 002, दिनांक 21 फरवरी 2003

सं० ए-19011/(73)/2003-प्रशा०-I—श्रीमती अश्विनी अमृत भाटी को बायदा बाजार आयोग, मुंबई में हिन्दी अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के पद पर 9 जनवरी, 2003 पूर्वाह्न से प्रतिनियुक्ति के आधार पर वेतनमान रुपये 6500-200-10500 में 3 वर्षों के लिए या अगले आदेश में से जो भी पहले हो तक के लिए नियुक्त किया गया है।

ए० ए० बामणे, सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 20 फरवरी 2003

1. सं० ए-32012/1/98-पी० II (.)—कामिका और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 20/2/98-सी०एम० II दिनांक 8-1-2003 द्वारा सूची के तहत उनके अनुमोदन

में श्री डी० नन्दी, निजी सचिव की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में प्रधान निजी सचिव की तदर्थ नियुक्ति 01-01-2003 से 30-6-2003 तक, अथवा नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से इस पद पर अनिश्चित काल तक इस पद पर बने रहने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशु-लिपिक सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव की वरिष्ठता सूची कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा। सरकार, किसी भी समय इस नियुक्ति को रद्द करने और उस पद पर प्रत्यावर्तित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित है जिस पद से वे प्रोन्नत हुए थे।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2003

सं० 12026/7/2001-स्था० 1/स्था० 5—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री पी० आर० भाटिया, सहायक, कृषि एवं सहकारिता विभाग को इसी विभाग में 25-2-2003 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि या आगामी आदेशों तक के लिए, दोनों में से जो भी पहले हो, 6500-10500 में के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक निदेशक (बजट) के पद पर नियुक्त करते हैं।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 फरवरी 2003

सं० 7 (2)/2001-पी० ए०-II—राष्ट्रपति जी ने निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 13-2-2003 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, दोनों में से जो भी बाद में हो, से उच्चतम वेतनमान में सीक्षा पदोन्नत किया है :—

क्र० सं०	नाम तथा पदनाम	नियुक्ति का स्थान	पदोन्नति पद तथा वेतनमान
1	2	3	4
1.	श्रीमती मंजुला भाटी, वैज्ञानिक 'सी'	ईआरटीएल (उत्तर)	वैज्ञानिक 'डी' रुपये 12000-16500/-
2.	श्री जी० डी० बत्रा, वैज्ञानिक 'सी'	ईटीडीसी, जयपुर	वैज्ञानिक 'डी' रुपये 12000-16500/-

1	2	3	
3.	श्री कमल जे० पी० जलडा, वैज्ञानिक 'सी'	ईटीडीसी, चैने	वैज्ञानिक 'डी' रुपये 12000-16500/-
4.	श्री गौतम दास, वैज्ञानिक 'सी'	ईआरटीएल (पूर्व)	वैज्ञानिक 'डी' रुपये 12000-16500/-
5.	श्रीमती रजनी यादव, वैज्ञानिक 'सी'	ईआरटीएल (उत्तर)	वैज्ञानिक 'डी' रुपये 12000-16500/-
6.	श्री सुलेख चन्द, वैज्ञानिक 'सी'	ईआरटीएल (उत्तर)	वैज्ञानिक 'डी' रुपये 12000-16500/-

ओ० पी० वर्मा, उप निदेशक

सं० 7 (2)/2001-पी० ए०-11 - राष्ट्रपति जो ने निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 13-02-2003 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, दोनों में से जो भी बाद में हो, से उच्चतम वेतनमान में समीक्षा पदोन्नत किया है :-

क्र० सं०	नाम तथा पदनाम	नियुक्ति का स्थान	पदोन्नति पद तथा वेतनमान
1.	श्रीमती कुसुम चावला, वैज्ञानिक 'डी'	ईआरटीएल (उत्तर), दिल्ली	वैज्ञानिक 'ई' रुपये 14300-18300/-
2.	श्री बी० के० मित्तल, वैज्ञानिक 'डी'	ईआरटीएल (उत्तर), दिल्ली	वैज्ञानिक 'ई' रुपये 14300-18300/-
3.	श्री बी० के० भाटिया, वैज्ञानिक 'डी'	ईटीडीसी, मोहाली	वैज्ञानिक 'ई' रुपये 14300-18300/-
4.	श्री के० के० हंसोड कुट्टी, वैज्ञानिक 'डी'	ईटीडीसी, बंगलौर	वैज्ञानिक 'ई' रुपये 14300-18300/-
5.	श्री आर० राजेन्द्रन, वैज्ञानिक 'डी'	ईटीडीसी, चैने	वैज्ञानिक 'ई' रुपये 14300-18300/-
6.	श्रीमती रेजी नायर, वैज्ञानिक 'डी'	ईआरटीएल (दक्षिण)	वैज्ञानिक 'ई' रुपये 14300-18300/-
7.	श्रीमती पी० के० पी० अम्मा, वैज्ञानिक 'डी'	ईआरटीएल (दक्षिण)	वैज्ञानिक 'ई' रुपये 14300-18300/-
8.	श्री पी० के० दत्ता, वैज्ञानिक 'डी'	ईआरटीएल (प०), मुम्बई	वैज्ञानिक 'ई' रुपये 14300-18300/-
9.	श्री आर मथु कुमार, वैज्ञानिक 'डी'	सीएफआर, चैने	वैज्ञानिक 'ई' रुपये 14300-18300/-
10.	श्री विश्वजीत देव, वैज्ञानिक 'डी'	ईआरटीएल (पूर्व०), कोलकाता	वैज्ञानिक 'ई' रुपये 14300-18300/-
11.	श्री धनंजय विश्वास, वैज्ञानिक 'डी'	ईआरटीएल (पूर्व०), कोलकाता	वैज्ञानिक 'ई' रुपये 14300-18300/-
12.	श्री अनील कुमार, वैज्ञानिक 'डी',	ईटीडीसी, जयपुर	वैज्ञानिक 'ई' रुपये 14300-18300/-
13.	श्री विशम्बर सिंह, वैज्ञानिक 'डी',	ईटीडीसी, जयपुर	वैज्ञानिक 'ई' रुपये 14300-18300/-

ओ० पी० वर्मा, उप निदेशक

दिनांक 20 फरवरी 2003

सं० 7(2)/2001-पी० ए०-II—राष्ट्रपति जी ने निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 13-02-2003 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दोनों में से जो भी बाद में हो, से उच्चतम वेतनमान में समीक्षा पदोन्नत किया है :—

नाम तथा पदनाम	नियुक्ति का स्थान	पदोन्नति पद तथा वेतनमान
श्री वी० रावे कुमार	ईटीडीसी, चेन्नै	वैज्ञानिक 'एफ' रु० 16400-20000/-
श्री वी० के० खंडेलवाल	ईआरटीएल	वैज्ञानिक 'एफ' रु० 16400-20000/-
श्री सुरजीत सिंह,	ईआरटीएल	वैज्ञानिक 'एफ' रु० 16400-20000/-
श्री डी० बसु,	ईआरटीएल	वैज्ञानिक 'एफ' रु० 16400-20000/-
श्री एम० पी० शर्मा	ईटीआरएल	वैज्ञानिक 'एफ' रु० 16400-20000/-
श्री ए० सत्यनारायणन	ईटीआरएल	वैज्ञानिक 'एफ' रु० 16400-20000/-
श्री एन० ई० प्रसाद	ईटीडीसी	वैज्ञानिक 'एफ' रु० 16400-20000/-
श्री श्री एस० मंती	ईटीडीसी	वैज्ञानिक 'एफ' रु० 16400-20000/-
बैज्ञानिक 'ई'	गुवाहाटी	रु० 16400-20000/-

ओ०पी० वर्मा, उप निदेशक

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं० ए० 12025/1/2001-आर० एस०—राष्ट्रपति, श्री पी० आर० इजारदार, वरिष्ठ मण्डल सि० दू० इजीनियर, पूर्वोत्तर रेलवे को नागर विमानन मंत्रालय के अधीन रेल संरक्षा आयोग में उप रेल संरक्षा आयुक्त (सि० दू०) के पद पर वेतनमान रु० 12,000-16,500 में 21 जनवरी, 2003 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक जो भी पहले घटित हो, नियुक्त करते हैं।

एस० राजगोपालन, उप सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2003

सं० ई आर बी-97/3/3—श्री ए० एस० वर्मा, पूर्व निजी सचिव, रेलवे बोर्ड (वेतनमान 6500-10500/- रु०) का दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड में स्थायी समाहन

होजाने के परिणामस्वरूप, उन्होंने 31-12-2002 (अपराह्न) से रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

आर० आर० जारुहार, सचिव,
रेलवे बोर्ड एवं पदेन अवर सचिव

सं० ई आर बी-I/2002/14/18—श्री अजय कुमार, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा (आर० बी० एस० एस० एस०) के ग्रेड 'सी' आशुलिपिकी को, 19-2-2003 के पूर्वाह्न से आर० बी० एस० एस० एस० के निजी सचिवों के ग्रेड (वेतनमान 6500-10500/- रु०) में पदोन्नत किया जाता है।

आर० आर० जारुहार, सचिव,
रेलवे बोर्ड एवं पदेन अवर सचिव

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 2003

सं० आर० डब्ल्यू०/ए० पी० (ई०ई०)/781-स्था-II—राष्ट्रपति, श्री प्रशांत जगन्नाथ फेगडे को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली में दिनांक 19-02-2003 (पूर्वाह्न) से और आगामी आदेशों तक कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु० 10000-325-15200 में नियुक्त करते हैं।

भारत भूषण जैन, अवर सचिव

सं० आर० डब्ल्यू०/ए० पी० (ई०ई०)/784-स्था-II—राष्ट्रपति, श्री दिलीप कुमार मोहापात्रा को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली में दिनांक 11-02-2003 (पूर्वाह्न) से और आगामी आदेशों तक कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु० 10000-325-15200 में नियुक्त करते हैं।

भारत भूषण जैन, अवर सचिव

सं० आर० डब्ल्यू०/ए० पी० (ई०ई०)/795-स्था-II—राष्ट्रपति, श्री विमलेश नंदन सहाय को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली में दिनांक 13-02-2003 (अपराह्न) से और आगामी आदेशों तक कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु० 10000-325-15200 में नियुक्त करते हैं।

भारत भूषण जैन, अवर सचिव

सं० आर० डब्ल्यू०/ए० पी० (ई०ई०)/799-स्था-II—
राष्ट्रपति, श्री निरंजन कुमार नायक को सड़क परिवहन एवं
राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में दिनांक 06-02-2003
(पूर्वाह्न) से और आगामी आदेशों तक कार्यकारी अभियंता
(यांत्रिक) के पद पर वेतनमान रु० 10000-325-15200
में नियुक्त करते हैं।

भारत भूषण जैन, अवर सचिव

सं० आर० डब्ल्यू०/ए० पी० (ई०ई०)/800-स्था०-II—
राष्ट्रपति श्री किरण चन्द्रा शर्मा को सड़क परिवहन एवं
राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में दिनांक 17-02-2003
(पूर्वाह्न) से और आगामी आदेशों तक कार्यकारी अभियंता
(यांत्रिक) के पद पर वेतनमान रु० 10000-325-15200
में नियुक्त करते हैं।

भारत भूषण जैन, अवर सचिव

दिनांक 26 फरवरी 2003

सं० आर० डब्ल्यू०/ए० पी० (ई०ई०)/777-स्था०-II—
राष्ट्रपति, श्री प्रदीप कुमार शाक्या को सड़क परिवहन एवं
राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में दिनांक 25-2-2003
(अपराह्न) से आगामी आदेशों तक कार्यकारी अभियंता
(सिविल) के पद पर वेतनमान रु० 10000-325-15200
में नियुक्त करते हैं।

भारत भूषण जैन, अवर सचिव

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2003

सं० ए-12028/3/2003-स्था०—राष्ट्रपति, श्री सुनील
कुमार जैन, सहायक, योजना आयोग, को 30 जनवरी, 2003
(अप०) से सह-अवसानी आधार पर 6500-10500 रु० के
वेतनमान में पोत परिवहन राज्य मंत्री (श्री दिलीप गांधी) के
प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुभाष चन्द, अवर सचिव

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2003

सं० एलएच-13013/1/2000-एसएल—श्रीमती हरचरण
कौर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में अनुभाग अधि-
कारी को राष्ट्रपति, 31-1-2003 के अपराह्न से अधिकतम
तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर दीपस्तंभ
एवं दीपपोत निदेशालय में प्रशासनिक अधिकारी (रु०
10,000-325-15,200) के पद पर नियुक्त करते हैं।

मुंशी राम, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2003

सं० वैयक्तिक मिसिल/1145/भा० सू० से०—श्रीमती ओमिता
पाल, भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' की वरिष्ठ प्रशासनिक
श्रेणी अधिकारी 24 सितम्बर, 2002 की अपराह्न की सरकारी
सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गयी हैं।

श्रीमती ओमिता पाल ने उसी तारीख से अपर महानिदेशक,
दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली के पद का कार्यभार
त्याग दिया है।

अशोक कुमार, उप सचिव

दिनांक 20 फरवरी 2003

सं० बै० फा०/947/भा० सू० से०—श्री वाई० पी० चोपड़ा,
भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी
अधिकारी (गैर-कार्यात्मक चयन श्रेणी) 31 दिसम्बर, 2002
की अपराह्न की सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

2. श्री वाई० पी० चोपड़ा ने उसी तारीख से पत्र सूचना
कार्यालय, नई दिल्ली में उप प्रधान सूचना अधिकारी के पद का
कार्यभार छोड़ दिया है।

अशोक कुमार, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं० 6/1/2003-प्रशा०-2—राष्ट्रपति, श्रीमती दीपा जैन
सिंह, भा० प्र० से० (हरि० : 71) को सूचना और प्रसारण
मंत्रालय में 22,400-525-24,500/- रुपये के वेतनमान में
दिनांक 7-2-2003 के अपराह्न से अगले आदेशों तक अपर
सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

विनय कुमार सेखड़ी, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 28th February 2003

No. RS/1531/Estt.(P).—On attaining the age of superannuation, Shri Ram Briksha Ram, Assistant Director (Security) retired from service with effect from the afternoon of the 28th February, 2003.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

The 3rd March 2003

No. RS/3(xiii)/2003/6-Peri.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Suresh Kumar Bakshi, Security Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the cadre of Assistant Director (Security) in that Secretariat with effect from the forenoon of the 1st March, 2003, until further orders.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 13th January 2003

No. PF.1747(3)/GN-4878/AN-I/2003.—The Speaker is pleased to appoint Shri J. P. Sharma, Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12750-16500 to the grade of Director in the scale of pay of Rs. 15100-400-18300 with effect from 9th January, 2003 until further orders.

RAM AUTAR RAM, Jt. Secy.

No. PF.1748(3)/GN-4879/AN-I/2003.—The Speaker is pleased to appoint the following Under Secretaries who were appointed as Deputy Secretary on ad-hoc basis, vide Notification No. GN-4616/2001 dated 3rd August, 2001, to the grade of Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12750-375-16500 on regular basis, in the order shown below, with effect from 9th January, 2003 until further orders :—

1. Shri A. S. Chera
2. Shri R. K. Jain

RAM AUTAR RAM, Jt. Secy.

No. PF. 1236(3)/GN-4880/AN-I/2003.—The Speaker is pleased to appoint Shri Gopal Singh, Under Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-16500 to the grade of Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12750-375-16500 on ad-hoc basis with effect from 9th January, 2003 until further orders.

RAM AUTAR RAM, Jt. Secy.

No. PF. 2294(3)/GN-4881/AN-I/2003.—The Speaker is pleased to appoint the following Assistant Directors in the scale of pay of Rs. 10000-15200 to the grade of Under Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500, in the order shown below, with effect from 9th January, 2003 until further orders :—

1. Shri P. C. Koul
2. Smt Neera Singh
3. Shri N. S. Hooda

RAM AUTAR RAM, Jt. Secy.

No. PF.2500(3)/GN-4882/AN-I/2003.—The Speaker is pleased to appoint the following Executive/Legislative/Committee/Protocol Officers in the scale of pay of Rs. 8000-13500 to the grade of Assistant Director in the scale

of pay of Rs. 10000-325-15200, in the order shown below, with effect from 9th January, 2003 until further orders :—

1. Shri A. K. Shah
2. Shri Y. M. Kandpal
3. Shri J. V. G. Reddy

RAM AUTAR RAM, Jt. Secy.

No. PF.2378(3)/GN-4883/AN-I/2003.—The Speaker is pleased to appoint Shri M. K. Madhusudan, Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000-13500 to the grade of Assistant Director in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 on ad-hoc basis with effect from 9th January, 2003 until further orders.

RAM AUTAR RAM, Jt. Secy.

No. PF.1363(3)/GN-4884/AN-I/2003.—The Speaker is pleased to appoint the following Senior Executive/Legislative/Committee/Protocol Assistants in the scale of pay of Rs. 7450-11500 to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500, in the order shown below, with effect from 9th January, 2003 until further orders :—

1. Shri N. K. Jain
2. Shri J. K. Jain
3. Smt. Surinder Marwaha
4. Smt. Vipin Soni

2. The above-mentioned persons will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of two years with effect from 9th January, 2003 upto 8th January, 2005.

3. Their inter-se-seniority in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated as per the new seniority orders which are being finalised and will be issued in due course with retrospective effect.

RAM AUTAR RAM, Jt. Secy.

The 28th January 2003

No. PF.2618(3)AN-I/GN-4888/2003.—The Speaker is pleased to appoint Shri Ravindra Kumar Mair, Translator in the scale of pay of Rs. 7450-11500 to the grade of Assistant Editor in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 with effect from 25th January, 2003 until further orders.

2. He will be on probation in the grade of Assistant Editor for a period of 2 years with effect from 25th January, 2003 upto 24th January, 2005.

3. His inter-se-seniority in the grade of Assistant Editor will be regulated as per the new seniority orders which are being finalised and will be issued in due course with retrospective effect.

RAM AUTAR RAM, Jt. Secy.

The 31st January 2003

No. PF.1159(3)/AN-I/GN-4890/2003.—On attaining the age of superannuation, Shri P. C. Chaudhary, Principal Chief Editor has retired from service with effect from the afternoon of 31st January, 2003.

RAM AUTAR RAM, Jt. Secy.

The 13th February 2003

No. PF. 1259(3)/AN-I/GN-4895/2003.—The Speaker is pleased to appoint Shri Sharda Prasad, Chief Editor in the scale of pay of Rs. 12750—16500 to the grade of Principal Chief Editor in the scale of pay of Rs. 15100-400-18300 with effect from 9th February, 2003 until further orders.

RAM AUTAR RAM, Jt. Secy.

No. PF.1313(3)/AN-I/GN-4896/2003.—The Speaker is pleased to appoint Shri Vidya Sagar Sharma, Senior Editor in the scale of pay of Rs. 12000—16500 to the grade of Chief Editor in the scale of pay of Rs. 12750-375-16500 with effect from 9th February, 2003 until further orders.

RAM AUTAR RAM, Jt. Secy.

No. PF.1826(3)/AN-I/GN-4897/2003.—The Speaker is pleased to appoint Shri B. K. Pathak, Editor in the scale of pay of Rs. 10000—15200 to the grade of Senior Editor in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 with effect from 9th February, 2003 until further orders.

RAM AUTAR RAM, Jt. Secy.

No. PF. 2069(3)/AN-I/GN-4898/2003.—The Speaker is pleased to appoint Shri B. S. Chauhan, Assistant Editor in the scale of pay of Rs. 8000—13500 to the grade of Editor in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 with effect from 9th February, 2003 until further orders.

RAM AUTAR RAM, Jt. Secy.

No. PF.3051(3)/AN-I/GN-4899/2003.—The Speaker is pleased to appoint Km. Paramjeet Kaur, Translator in the scale of pay of Rs. 7450—11500 to the grade of Assistant Editor in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 with effect from 9th February, 2003 until further orders.

2. She will on probation in the grade of Assistant Editor form a period of 2 years with effect from 9th February, 2003 upto 8th February, 2005.

3. Her inter-se-seniority in the grade of Assistant Editor will be regulated as per the new seniority orders which are being finalised and will be issued in due course with retrospective effect.

RAM AUTAR RAM, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-566094, the 26th February 2003

No. 2/2(3)/98-V.—On conclusion of the disciplinary proceedings the President is pleased to dismiss from service Shri A. M. Buch, Scientist/Engineer 'SD', Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space vide Order of even number dated January 10, 2003.

VANI RAMACHANDRA, Under Sery.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 14th February 2003

No. A-19(4)/2003-Adm.II.—The President is pleased to appoint Shri M. Vijayakumar to the post of Senior Research Officer (Metallurgy) in the Planning Commission, in temporary capacity, in the scale of pay of Rs. 10 000-325-15,200 (under normal rules) with effect from the forenoon of 14th February, 2003 and until further orders.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 24th February 2003

No. K. 11017/2/2003-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Vinod Kumar Gupta, Chief Justice of the Jharkhand High Court, as the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court and to direct him to assume charge of the office of the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court on or before March 11, 2003.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

No. K. 11017/2/2003-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice P. K. I. Balasubramanian, Chief Justice of the Orissa High Court, as the Chief Justice of the Jharkhand High Court and to direct him to assume charge of the office of the Chief Justice of the Jharkhand High Court on or before March 11, 2003.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

No. K. 13016/5/2002-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 222, read with article 222 (1A) of the Constitution of India in its application to Jammu and Kashmir, the President, after consultation with the Governor of Jammu and Kashmir and the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Babulal Chandulal Patel, Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir, as the Chief Justice of the Delhi High Court, and to direct him to assume charge of his office in the Delhi High Court on or before March 11, 2003.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

No. K. 13016/5/2002-US.H.—WHEREAS by Notification of the Government No. K. 13016/5/2002-US.II dated February 24, 2003, the President has been pleased to transfer Shri Justice Babulal Chandulal Patel, Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court, to be the Chief Justice of the Delhi High Court.

NOW THEREFORE, the President in exercise of the powers conferred by section 100 of the Constitution of Jammu and Kashmir, is pleased to appoint Shri Justice Vijay Kumar Jhanji, seniormost Judge of the High Court of Jammu and Kashmir, to perform the duties of the office of the Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir with effect from the date Shri Justice Babulal Chandulal Patel, Chief Justice of that High Court, relinquishes charges of the office of the Chief Justice of that High Court.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

The 26th February 2003

No. K-13013/3/2002-US.I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Dr. Justice Gurugubelli Yethirajulu, (2) Shri Justice Dalava Subrahmanvam, (3) Shri Justice Dubagunta Subrahmanyam and (4) Shri Justice Chintamaneni Sreerama Krishna Prasad, Additional Judges of the Andhra Pradesh High Court, to be Judges of the Andhra Pradesh High Court, in that order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective office.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 21st February 2003

No. 14016/59/2001-UTS-II.—The President is pleased to appoint the following Grade-I (Selection Grade) officers of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service to the Junior Administrative Grade of the Service in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with immediate effect in terms of sub-rules (3) to (5) of Rule 7 of Delhi, Andaman & Nicobar

Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service Rules, 1996 :—

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth & Remarks
1	2	3

(S/Shri)

1. Omkar (SC), 09-02-1947—Proforma promotion under NBR.
2. R. K. Misra, 13-12-1958.
3. J. S. Sidhu, 13-03-1959—Proforma promotion under NBR.
4. Krishan Kumar, 25-12-1953—Proforma promotion under NBR.
5. R. N. Mangla, 23-04-1958.
6. V. K. Beniwal, 22-07-1957.
7. P. C. Jain, 20-12-1958—Proforma promotion under NBR restricted to a maximum period of 6 months or till appointment to a cadre post in JAG of the Service whichever is earlier.
8. Smt. Madhu K. Garg, 27-01-1961.
9. D. C. Rai (SC), 01-04-1944.
10. S. N. Mishra, 15-12-1959—Proforma promotion under NBR.
11. Devender Singh, 26-11-1961.
12. Rakesh Bhatnagar, 26-03-1959.
13. Prem Chand (SC), 14-04-1944—Proforma promotion under NBR.
14. Lakhpat Rai Garg, 05-08-1959—Proforma promotion under NBR.
15. S. K. Bhandari, 01-06-1961—Proforma promotion under NBR.
16. Bansi Lal Sharma, 20-11-1959.
17. Basu Ram, 29-10-1949.
18. Umesh Kumar, 06-03-1959, Proforma promotion under NBR.
19. Cephas Jack (ST), 07-02-1943.
20. J. P. Agrawal, 05-06-1962—Proforma promotion under NBR.
21. Sudhir Mahajan, 14-02-1961.
22. G. G. Babapstra (ST), 01-07-1951.
23. Ajai Kumar Singla, 07-02-1960—Proforma promotion under NBR restricted to a maximum period of 6 months or till appointment to a cadre post in JAG of the Service whichever is earlier.
24. D. N. Singh, 08-03-1961—Proforma promotion under NBR.
25. S. S. Sidhu, 05-01-1955.
26. B. R. Singh, 28-01-1960.
27. Durga Das (SC), 10-10-1945.
28. Suresh Gupta, 25-06-1959.
29. M. S. Poonam, 05-07-1964—Proforma promotion under NBR.
30. S. S. Kanawat (SC), 17-07-1958—Proforma promotion under NBR.
31. Virender Kumar, 29-04-1963.
32. Azimul Haque, 01-01-1966—Proforma promotion under NBR.
33. V. K. Gupta, 10-09-1951.
34. Makesh Prasad, 22-06-1952—Proforma promotion under NBR.
35. R. C. Meena (ST), 16-01-1957—Proforma promotion under NBR.
36. M. K. Harit (SC), 16-01-1961—Proforma promotion under NBR restricted to a maximum period of 6 months or till appointment to a cadre post in JAG of the Service whichever is earlier.

(S/Shri)

37. M. R. M. Rao, 12-04-1965—Proforma promotion under NBR restricted to a maximum period of 6 months or till appointment to a cadre post in JAG of the Service whichever is earlier.
38. S. K. Jain, 18-04-1965—Proforma promotion under NBR.
39. S. B. Shashank, 14-02-1963—Proforma promotion under NBR.
40. H. P. Singh, 27-07-1964—Proforma promotion under NBR.
41. Vijendra Singh, 19-05-1963.
42. K. K. Bhatia, 01-03-1944—Proforma promotion under NBR restricted to a maximum period of 6 months or till appointment to a cadre post in JAG of the Service whichever is earlier.
43. Mrs. Rashmi Singh, 03-07-1967—Proforma promotion under NBR.

N. J. THOMAS, Under Secy.

The 25th February 2003

No. 14016/16/2002-UTS-II.—The President is pleased to appoint the following Grade-II officers of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service (DANICS) to Grade-I (Selection Grade) of the Service with effect from the dates shown against their names :—

S. No., Names & Date of appointment to Grade-I (Selection Grade)

(S/Shri)

1. P. R. Krishna Narayanan, 19-01-1984.
2. E. P. Attaknya Thangal, 19-01-1984.
3. B. S. Panwar, 10-06-1988.

2. On the said appointment, the names of S/Shri P. R. Krishna Narayanan and E. P. Attakoya Thangal are placed at Sl. No. 27-A and 27-B respectively below the name of Shri A. K. Acharya and above the name of Shri S. N. Chatterjee and the name of Shri B. S. Panwar is placed at Sl. No. 84-A below the name of Shri S. K. Mathur and above the name of Mrs. Rashmi Krishnan in the Ministry of Home Affairs Notification No. 14016/36/94-UTS-II dated 4th August, 1995.

N. J. THOMAS, Under Secy.

No. 14040/6/2000-UTS-II.—The President is pleased to appoint Shri Madhukar, Grade-I officer of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service (DANICS) to the Junior Administrative Grade of the Service with effect from 16th December, 1993.

2. On such appointment, the name of Shri Madhukar will appear at Sl. No. 94-A below the name of Shri K. K. Jindal and above the name of Shri Rajiv Kale in the Ministry of Home Affairs Notification No. 14016/46/94-UTS-II dated 9th August, 1996.

N. J. THOMAS, Under Secy.

New Delhi, the 24th February 2003

No. I-14020/6/97-Ad(CD).—The President is pleased to appoint Sh. Ram Kumar Thakur, Senior Hindi Translator in the Office of the Chief Commissioner of Income-Tax, Thane as Hindi Officer in the National Civil Defence College, Nagpur, Ministry of Home Affairs, on deputation with effect from 5-2-2003 (F/N) until further orders.

K. C. YADAV, Under Secy.

New Delhi, the 4th March 2003

No. I-14011/6/2002-IPS.I.—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 20-02-2003, approved the Select List of 2002, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 31-12-2002, containing the names of the following State Police Service Officers of Gujarat, towards filling up five substantive vacancies in the IPS Gujarat Cadre during 2002 :

S. No., Name of the officer & Date of Birth

(S/Shri)

- 1.* A. V. Vasava(ST)—01-05-1951.
- 2.* J. N. Rajgor—04-01-1954.
3. R. J. Savani—29-12-1959.
4. D. R. Patel—01-06-1957.
5. S. M. Katara (ST)—01-06-1957.

* The officers at Sl. No. 1 & 2 are included in the Select List provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

The recommendations of the Selection Committee are subject to the final outcome of the SCA Nos. 582/97 filed by Sh. S. S. Trivedi and SCA No. 9266/97 filed by Sh. H. G. Patel & Ors. before the Hon'ble High Court of Gujarat.

S. P. VERMA, Under Secy.

No. I-14011/6/2002-IPS.I.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Gujarat Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the IPS Cadre of Gujarat under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

S. No., Name of the officer & Date of Birth

(S/Shri)

1. R. J. Savani, 29-12-1959
2. D. R. Patel, 01-06-1957
3. S. M. Katara, 01-06-1957.

The above appointments are subject to the final outcome of the SCA Nos. 582/97 filed by Sh. S. S. Trivedi and SCA No. 9286/97 filed by Sh. H. G. Patel & Ors. before the Hon'ble High Court of Gujarat.

S. P. VERMA, Under Secy.

New Delhi, the 5th March 2003

No. 20/G/2471-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri K. S. Ramasubban, IAS (WB : 76), as Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 03rd March, 2003, until further orders.

S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

No. 20/G/2472-Ad.I.—The President is pleased to appoint Ms. M. S. Gavai, IAS (MH : 84), as Director in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 03rd March, 2003, until further orders.

S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 28th February 2003

No. A. 19011/3/2002-ISC.—On attaining the age of superannuation, Shri N. L. Lakhanpal, IAS (MH : 67), Secretary, Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs retired from Govt. Service with effect from the afternoon of 28th February, 2003.

A. BANERJI, Director.

DEPARTMENT OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi, the 13th February 2003

No. F. 2/65/2003-DONER.—The President is pleased to appoint Shri M. K. Sharma as Desk Officer, in the Department of Development of North Eastern Region w.e.f. the forenoon of 23rd January, 2003 in the pay scale of Rs. 6500—10500/- until further orders.

P. K. JAIN, Under Secy.

The 19th February 2003

No. F. 2/65/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. Sunita Chhibba, IES as Director, Department of Development of North Eastern Region w.e.f. the Forenoon of 3rd February, 2003 in the pay scale of Rs. 14300-18300/- until further orders.

T. K. MURUGAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 28th February 2003

No. 14015/30/2001-AIS(I)-A.—In terms of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2001 for Kerala containing the names of the following State Civil Service officers of the State of Kerala prepared by the Selection Committee in its meeting held on 03-10-2002, towards filling up four vacancies in the Kerala cadre of the Indian Administrative Service during 2001 :—

S. No., Name of officer & Date of Birth

1. Smt. Suman N. Menon (SC)—26-05-1959
- *1A Sh. K. R. Rajan—02-12-1956
2. Smt. S. Sathi Amma (SC)—06-02-1948
3. Sh. T. T. Antony—15-12-1952
4. Sh. K. Ajaykumar—28-12-1995.

*The name of Sh. K. R. Rajan has been included provisionally subject to clearance of the disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government. The officer's inclusion is in addition to the normal size of the Select List.

**The recommendations of the Selection Committee are subject to the outcome of O.A. No. 777/2002 filed by Sh. R. Ramdas Vs. VOI & Ors. in the Hon'ble CAT, Ernakulam Bench, in pursuance to the interim orders dated 15-01-2003 of the Tribunal.

Y. P. DHINGRA, Under Secy.

No. 14015/30/2001-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub regulation (1) of regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954,

the President is pleased to appoint Smt. Sumana N. Menon (SC), Smt. S. Sathi Amma (SC), Sh. T. T. Antony and Sh. K. Ajayakumar, members of the State Civil Service of Kerala to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Kerala Cadre of the IAS, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

2. These appointments are subject to the outcome of O.A. No. 777/2002 filed by Sh. R. Ramdas in the CAT, Ernakulam Bench.

Y. P. DHINGRA, Under Secy.

New Delhi, the 27th February 2003

No. 24012/7/2003-AIS(II).—The President is pleased to accept the resignation of Shri Keshav Gaur, IAS (AGMU : 91), a member of the Indian Administrative Service, borne on the cadre of AGMU, from the Indian Administrative Service with effect from 15th May, 2002.

SHAUKAT ALI, Desk Officer

New Delhi, the 3rd March 2003

No. 22012/161/92-AIS(I).—In pursuance of the Order dated 6-2-1998 of CAT Principal Bench in OA No. 3078/92 read with the Order dated 1-10-2002 of High Court of Delhi in CWP No. 6533/98 and Order dated 14-2-2003 of the Supreme Court in SLP (C) No. 2174/2003, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, hereby transfers Shri K. Shivaji, IAS (RR : 86) from Kerala Cadre of IAS to Maharashtra Cadre of IAS with immediate effect.

K. K. SHARMA, Desk Officer

No. 13017/44/2002-AIS(I).—In exercise of the power conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Tamil Nadu and Madhya Pradesh, the Central Govt. hereby accords approval for deputation of Shri Sandeep Saxena, IAS (RR : 89) from IAS Cadre of Tamil Nadu to the IAS Cadre of Madhya Pradesh for a period of three years with effect from the date of his reporting for duty to the Government of Madhya Pradesh or until further orders, whichever event takes place earlier.

K. K. SHARMA, Desk Officer

TRAINING DIVISION

New Delhi-110 067, the 27th February 2003

No. 13019/3/2003-ACADEMY (DESK).—The President is pleased to appoint Shri Binod Kumar, IAS (NL : 70), Special Director LBSNAA as Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Mussoorie w.e.f. 20th January 2003 until further orders.

MANISHA BHATNAGAR, Desk Officer

No. 13016/2/2001-Trg.I.—The President is pleased to appoint Shri P. S. Sareen, Under Secretary of the CSS Cadre of Ministry of Home Affairs as Deputy Director (Management Services) in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), New Delhi, on deputation basis, for a period of 5 years with effect from the forenoon of 17th February, 2003 or until further orders whichever is earlier.

MANISHA BHATNAGAR, Desk Officer

The 3rd March 2003

No. 13016/4/2002-Trg.I.—The President is pleased to continue the appointment of Shri Chandan Mukherjee, Section Officer, of CSS in the Ministry of Power as Assistant Director (Office Management) in the Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi, on deputation basis, for a further period of three months w.e.f. 9-2-2003 to 3-5-2003 or, till his substitute joins, whichever is earlier.

2. This issues in continuation of this Department's Notification No. 13016/4/2002-Trg. dated 28-2-2003.

MANISHA BHATNAGAR, Desk Officer

No. 13019/14/2000-ACADEMY (DESK).—Consequent upon appointment as Secretary, Department of Consumers Affairs, Food and Public Distribution Shri Wajahat Habibullah, IAS (JK : 68) has relinquished the charge of office of the Director in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie w.e.f. 13th January, 2003 (afternoon).

MANISHA BHATNAGAR, Desk Officer

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 10th February 2003

No. 15 : (F. No. A. 19011/10/2002-Ad.I.).—In continuation of this Department's Notification No. 48 dated 24-06-2002 and Notification No. 89 dated 22-11-2002, the President is pleased to extend the services of Shri M. K. Zutshi, Chairman, Central Board of Excise & Customs and ex-officio Special Secretary to the Government of India, Ministry of Finance and Company Affairs, Department of Revenue, for a further period of 3 (three months) as a one time exception only, from 01-03-2003 upto 31-05-2003.

PREETI PANT, Under Secy.

The 13th February 2003

No. 18 : (F. No. A. 19012/5/2003-Ad.I.).—President is pleased to appoint Smt. Priya V. K. Singh, (IC&CES : 91) as Deputy Secretary in the Department of Revenue for a period of four years w.e.f. 11-02-2003 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

PREETI PANT, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 14th February 2003

CORRIGENDUM

No. A. 12011/9/2002-Admn.II.—In partial modification of this Department's Notification of even number dated 31st December 2002, the words w.e.f. 30-12-2002 (AN) may kindly be read as w.e.f. 30-12-2002 (FN).

O. P. SHARMA, Desk Officer

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 26th February 2003

No. A-12025/1/2003-EG.—The President is pleased to appoint following Officers to the Junior Time Scale of Indian Audit and Accounts Service with effect from the dates noted against each :—

S. No., Name & with effect from

1. Anadi Misra, 18-12-2000
2. Sumant Narain, 18-12-2000
3. Satish Sethi, 18-12-2000
4. Dharmendra Kumar, 18-12-2000
5. Faisal Imam, 4-9-2000
6. Ms. Sai Ahiladini Panda, 18-12-2000
7. Ms. Aparajita Ghosh, 18-12-2000
8. Ms. Vidhu Sood, 18-12-2000
9. P. V. Hari Krishna, 21-9-2000
10. R. T. Venkatasamy, 18-12-2000
11. D. Jaisankar, 4-9-2000
12. Vikram D. Murugaraj, 18-12-2000
13. Rajdeep Singh, 18-12-2000
14. Santosh Kumar, 18-12-2000

2. All the 14 Officers are working in the Offices under the C&AG of India.

MAHENDRA KUMAR, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 26th November 2002

No. PFG (346)/2002-Ad.I.—Consequent upon his selection by the UPSC to the Junior Time Scale (Accounts Branch) of the Indian Company Law Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13,500, the President is pleased to appoint Shri N. K. Dua, as Assistant Director (Inspection) at the Headquarters of the Department of Company Affairs with effect from the forenoon of 10-10-2002 and until further orders.

RAJESH MALHOTRA, Dy. Secy.

New Delhi, the 24th February 2003

No. PFG(636)/2001-AD-II.—On her selection through the Union Public Service Commission by direct recruitment, the President is pleased to appoint Smt. Kommuri Latha Parimala Vadana in the Junior Time Scale (Legal Branch) of Indian Company Law Service with effect from 18-10-2002 (FN).

2. In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) (1A) of Section 448 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Smt. K. Latha Parimala Vadana, to officiate as Assistant Official Liquidator, in the Office of Official Liquidator, attached to the High Court, Chennai w.e.f. the forenoon of 18-10-2002, until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 31st October 2002

No. 11/29/95-EP (Agri.IV).—The President is pleased to extend the tenure of Central Deputation of Shri Anil Swarup, IAS (UP: 81) as Chairman of the Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) for a period of six months beyond 13th October, 2002 with the direction that at the end of six months' extension, he will stand reverted.

ANUP K. THAKUR, Jt. Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 28th February 2003

No. 6/2003 (No. 2/2/2002/HRD-I/29).—Consequent on the selection to the post of Foreign Trade Development Officer (Gazetted Group 'B') (Non-CSS) by the Departmental Promotion Committee, the Director General of Foreign Trade is pleased to appoint the following officers in this Directorate with effect from the date of joining to the post in the place of posting indicated in this Directorate Office Order No. 28/2003 dated 28-02-2003.

S. No. and Name of Officer

1. Smt. Aruna N. Koli
2. Shri Rajesh Rajbhatt

A. K. M. CHAKANKAR
Jt. Director General of Foreign Trade

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

FORWARD MARKETS COMMISSION

Mumbai-400002, the 21st February 2003

No. A.19011/(73)/2003-ADM-I.—Smt. Ashwini A. Bhati, is appointed as Hindi Officer (Group 'B' Gazetted) in Forward Markets Commission, Mumbai, in the Scale of Pay of Rs. 6500-200-10500/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier w.e.f. the forenoon of 9th January, 2003.

A. A. BAMNE, Secretary

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi, the 20th February 2003

No. A-32012/1/98-P.II(.).—With the approval of the Department of Personnel & Training conveyed vide their OM No. 20/2/98-CS.II dated 8-1-2003; the ad-hoc appointment of Shri D. Nandi Private Secretary as Principal Private Secretary in the Ministry of Environment & Forests is hereby extended from 01-01-2003 to 30-6-2003 or till the regular incumbent becomes available or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment will not confer any right on him to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS. The Government reserves the right to cancel at any time the ad-hoc appointment and to revert the officer to the post from which he was promoted.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 3rd March 2003

No. 12026/7/2001-E.I/E.V.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri P. R. Bhatia, Assistant, Department of Agriculture & Cooperation, as Assistant Director (Budget) in the pay scale of Rs. 6500—10500 in the same Department on deputation basis w.e.f. the forenoon of 25-02-2003 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

K. D. UPRETI, Under Secy.

**MINISTRY OF COMMUNICATION & INFORMATION
TECHNOLOGY**
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)
**STANDARDISATION, TESTING & QUALITY CERTIFICA-
TION DIRECTORATE**

New Delhi-110003, the 18th February 2003

No. 7(2)/2001-PA-II.—The President is pleased to appoint the following officers to higher grades indicated below to give effect to the review promotion with effect from 13-02-2003 or from the date of assumption of charge of post, whichever is later :—

S. No., Name & Designation and Place of Posting	Post of Promotion & Scale of Pay
1. Smt. Manjula Bhati, Scientist 'C', ERTL(N)	Scientist 'D' Rs. 12000—16500/-
2. Shri G. D. Batra, Scientist 'C', ETDC, Jaipur	Scientist 'D' Rs. 12000—16500/-
3. Shri Kamal J. P. Lakra, Scientist 'C', ETDC, Chennai	Scientist 'D' Rs. 12000—16500/-
4. Shri Gautam Das, Scientist 'C', ERTL (East)	Scientist 'D' Rs. 12000—16500/-
5. Smt. Rajni Yadav, Scientist 'C', ERTL(N)	Scientist 'D' Rs. 12000—16500/-
6. Shri Sulekh Chand, Scientist 'C', ERTL(N)	Scientist 'D' Rs. 12000—16500/-

O. P. VERMA, Dy. Director

No. 7(2)/2001-PA-II.—The President is pleased to appoint the following officers to higher grades indicated below to give effect to the review promotion with effect from 13-02-2003 or from the date of assumption of charge of post, whichever is later :—

S. No., Name & Designation and Place of Posting	Post of Promotion & Scale of Pay
1. Smt. Kusum Chawla, Sci. 'D', ERTL(N), Delhi	Scientist 'E' Rs. 14300—18300/-
2. Shri V. K. Mittal, Sci. 'D', ERTL(N), Delhi	Scientist 'E' Rs. 14300—18300/-
3. Shri V. K. Bhatia, Sci. 'D', ETDC, Mohali	Scientist 'E' Rs. 14300—18300/-
4. Shri K. K. Hameed Kutty, Sci. 'D', ETDC, Bangalore	Scientist 'E' Rs. 14300—18300/-
5. Shri R. Rajendran, Sci. 'D', ETDC, Chennai	Scientist 'E' Rs. 14300—18300/-
6. Smt. Reji Nair, Sci. 'D', ERTL(S)	Scientist 'E' Rs. 14300—18300/-
7. Smt. P. K. P. Amma, Sci. 'D', ERTL(S)	Scientist 'E' Rs. 14300—18300/-
8. Shri P. K. Dutta, Sci. 'D', ERTL(W), Mumbai	Scientist 'E' Rs. 14300—18300/-
9. Shri R. Muthukumar, Sci. 'D', CFR, Chennai	Scientist 'E' Rs. 14300—18300/-
10. Shri Bishwajit Deb, Sci. 'D', ERTL(E), Kolkata	Scientist 'E' Rs. 14300—18300/-
11. Shri Dhananjay Biswas, Sci. 'D', ERTL(E), Kolkata	Scientist 'E' Rs. 14300—18300/-
12. Shri Anil Kumar, Sci. 'D', ETDC, Jaipur	Scientist 'E' Rs. 14300—18300/-
13. Shri Bishwamkar Singh, Sci. 'D', ETDC, Jaipur	Scientist 'E' Rs. 14300—18300/-

O. P. VERMA, Dy. Director

The 20th February 2003

No. 7(2)/2001-PA-II.—The President is pleased to appoint the following officers to higher grades indicated below to give effect to the review promotion with effect from 13-02-2003 or from the date of assumption of charge of post, whichever is later :—

S. No., Name & Designation and Place of Posting	Pst of Promotion & Scale of Pay
1. Shri B. Ravi Kumar, Sci. 'E', ETDC, Chennai	Scientist 'F' Rs. 16400—20000/-
2. Shri V. K. Khandelwal, Sci. 'E', ERTL(W)	Scientist 'F' Rs. 16400—20000/-
3. Shri Surjeet Singh, Sci. 'E' ERTL(N)	Scientist 'F' Rs. 16400—20000/-
4. Shri D. Basu, Sci. 'E', ERTL(E)	Scientist 'F' Rs. 16400—20000/-
5. Shri M.P. Sharma, Sci. 'E', ERTL(N)	Scientist 'F' Rs. 16400—20000/-
6. Shri A. Sathyanarayanan, Sci. 'E', ERTL(N)	Scientist 'F' Rs. 16400—20000/-
7. Shri N. E. Prasad, Sci. 'E', ETDC (Hy)	Scientist 'F' Rs. 16400—20000/-
8. Shri S. Mañi, Sci 'E', EDTS (Guwahati)	Scientist 'F' Rs. 16400—20000/-

O. P. VERMA, Dy. Director

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 7th February 2003

No. A-12025/1/2001-RS.—The President is pleased to appoint Shri P. R. Izardar, Sr. DSTE, N. E. Railway as Deputy Commissioner of Railway Safety (Signalling & Telecommunication) in the Commission of Railway Safety under the Ministry of Civil Aviation in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500 for a period of five years w.e.f. forenoon of 21st January, 2003 or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. RAJAGOPALAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 28th February 2003

No. ERB-I/97/8/3.—Consequent upon his permanent absorption in Delhi Metro Rail Corporation Ltd., Shri A. S. Verma, formerly Private Secretary, Railway Board (Scale Rs. 6500—10500/-) has resigned from Railway Board Secretariat Stenographers' Service with effect from 31-12-2002 (A/N).

R. R. JARUHAR
Secy., Railway Board and
Ex-officio Additional Secy.

No. ERB-I/2002/14/18.—Shri Ajay Kumar, Stenographer Grade 'C' of Railway Board Secretariat Stenographers' Service (RBSSS) is promoted to the grade of Private Secretaries of RBSSS (Scale : Rs. 6500—10500/-) w.e.f. the forenoon of 19-02-2003.

R. R. JARUHAR
Secy., Railway Board and
Ex-officio Additional Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 24th February 2003

No. RW/AP(EE)/781-E.II.—The President is pleased to appoint Shri Prashant J. Fegade as Executive Engineer (Civil) in the Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 19-02-2003 (F/N) and until further orders.

B. B. JAIN, Under Secy.

No. RW/AP(EE)/784-E.II.—The President is pleased to appoint Shri Dilip Kumar Mahapatra as Executive Engineer (Civil) in the Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 11-02-2003 (F/N) and until further orders.

B. B. JAIN, Under Secy.

No. RW/AP(EE)/795-E.II.—The President is pleased to appoint Shri Bimlesh Nanda Sahay as Executive Engineer (Civil) in the Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 13-02-2003 (A/N) and until further orders.

B. B. JAIN, Under Secy.

No. RW/EE/799-E.II.—The President is pleased to appoint Shri Niranjan Kumar Nayak as Executive Engineer (Mech) in the Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 06-02-2003 (F/N) and until further orders.

B. B. JAIN, Under Secy.

No. RW/AP/EE/800-E.II.—The President is pleased to appoint Sh. Kiran Chandra Sharma as Executive Engineer (Mech) in the Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 17-02-2003 (F/N) and until further orders.

B. B. JAIN, Under Secy.

The 26th February 2003

No. RW/AP(EE)/777-E.II.—The President is pleased to appoint Shri Pradeep Kumar Shakya as Executive Engineer (Civil) in the Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 25-02-2003 (A/N) and until further orders.

B. B. JAIN, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 26th February 2003

No. A-12028/3/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Sunil Kumar Jain, Assistant of Planning Commission as First Personal Assistant to Minister of State for Shipping (Shri Dilip Gandhi), in the pay scale of Rs. 6500—10500/- w.e.f. 30th January, 2003 (A/N) on co-terminus basis.

SUBHASH CHAND, Under Secy.

(SHIPPING WING)

New Delhi, the 20th February 2003

No. LH-12013/1/200-SL.—The President is pleased to appoint Smt. Harcharan Kaur, Section Officer, Ministry of Road Transport & Highways to the post of Administrative Officer (Rs. 10,000-325-15,200/-) in the Directorate General of Lighthouses & Lightships on deputation basis w.e.f. the afternoon of 31st January, 2003, for a period not exceeding three years.

MUNSHI RAM, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 17th February 2003

No. PF/1145/IIS.—Smt. Omita Paul, a Senior Administrative Grade Officer of IIS Group 'A' retired voluntarily from Govt. service on the forenoon of 24th September, 2002.

2. Smt. Omita Paul relinquished charge of the post of Additional Director General, DG : Doordarshan, New Delhi, on the same date.

ASHOK KUMAR, Dy. Secy.

The 20th February 2003

No. PF/947/IIS.—Shri Y. P. Chopra, a Junior Administrative Grade (NFSG) Officer of IIS Group 'A' retired from Govt. service on the afternoon of 31st December, 2002.

2. Shri Y. P. Chopra relinquished charge of the post of DPIO, PIB, New Delhi on the same date.

ASHOK KUMAR, Dy. Secy.

New Delhi-110 001, the 10th February 2003

No. 6/1/2003-Admn. II.—The President is pleased to appoint Smt. Deepa Jain Singh, IAS (HY:71) as Additional Secretary and Financial Adviser in the Ministry of Information & Broadcasting in the pay scale of Rs. 22400-525-24500/- with effect from the forenoon of 07-02-2003 until further orders.

V. K. SEKHRI, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, फरीदाबाद द्वारा मन्त्रित
एवं प्रकाशन नियन्त्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 2003